



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 650]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 12, 2008/अग्राहायण 21, 1930

No. 650]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 12, 2008/AGRAHAYANA 21, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2008

सं. 133/2008-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 853(अ).—अभिहित प्राधिकारी, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 29 या 38 के अंतर्गत आने वाले, चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया आर.पी. (जिसे इसमें इसके पश्चात् संबद्ध देश भी कहा गया है) में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किये गए, रबड़ रसायनों अर्थात् एमबीटी (जिसका रसायनिक विवरण 2 मर्केप्टो बेंजोथिआइल है), सीबीएस (जिसका रसायनिक विवरण एन-साइक्लोहेक्सइल-2-बेंजोथिओल सल्फेनामाइड है), टीडीक्यू (जिसका रसायनिक विवरण पॉलिमेराइज्ड 2, 2, 4-ट्राइमिथाइल-1, 2-डाइहाइड्रोक्विनोलिन है), पीवीआई [जिसका रसायनिक विवरण एन-(साइक्लोहेक्स साइलथियो) थैलामाइड है], टीएमटी (टेट्रामिथाइलथियुरम डिसफ्लुड है) और पीएक्स 13(6 पीपीडी) [जिसका रसायनिक विवरण एन (1, 3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल)-एन फिनाइल-पी-1] (जिसे इसमें इसके पश्चात् संबद्ध माल भी कहा गया है) के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 28 फरवरी, 2008 में प्रकाशित अपने प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/5/2007-डीजीएडी, तारीख 28 फरवरी, 2008 में इस निर्णय पर पहुंचे थे कि —

(क) भारत को संबद्ध देश से संबद्ध माल का निर्यात उसके सामान्य मूल्यों से कम कीमत पर किया गया था ;

(ख) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई थी;

(ग) संबद्ध देश को यह क्षति पाटित आयातों के कारण हुई थी;

और, संबद्ध देश में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किये गए संबद्ध माल के आयातों पर अनन्तिम प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी ।

और, जबकि अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 61/2008-सीमाशुल्क, तारीख 5 मई, 2008, जो कि सा.का.नि. 337(अ), तारीख 5 मई, 2008, के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी के द्वारा संबद्ध माल पर, अनन्तिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और, जबकि, अभिहित प्राधिकारी, अपने अंतिम निष्कर्षों अधिसूचना सं. 14/5/2007-डीजीएडी, तारीख 1 अक्टूबर, 2008 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 1 अक्टूबर, 2008 में प्रकाशित हुई, से इस निर्णय पर पहुंचे थे कि—

(क) संबद्ध देशों के मूल के आयात पाटित कीमतों पर किए जा रहे हैं और इन्हीं से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई थी ।

(ख) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात उनके सामान्य मूल्य, घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत एवं आवेदकों की संबद्ध वस्तुओं की निवल बिक्री प्राप्ति से कम कीमत पर किया गया है और इससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची थी ।

(ग) संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आई गिरावट के कारण घरेलू उद्योग अपनी बिक्री को मांग में हुई वृद्धि के अनुरूप बढ़ा नहीं सका ।

(घ) अत्यधिक कीमत कटौती और पाटित आयातों की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि लाभ, नकद प्रवाह, एवं निवेश से आय के रूप में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था ।

(ड) संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में हुई अत्यधिक वृद्धि (निरपेक्ष रूप में तथा मात्रा में निरपेक्ष रूप में) के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में उल्लेखनीय गिरावट आई थी।

और अभिहित प्राधिकारी ने संबद्ध देश में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किये, संबद्ध माल के आयातों में निम्नवर्गीकृत प्रतिपादन शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी :

अतः अब, केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (4) तथा उपधारा (5) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमाशुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपादित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अनुपात) नियम, 1995 के नियम 18 और 20 के अधीन अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त आचरण के आधार पर अधोनिर्दिष्ट सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित देशों में उदगमित, उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए, संबद्ध मालों पर, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्ष के अंतर्गत आते हैं, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है, और जिनकी विशिष्टता उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से, उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित राशि के समतुल्य दर पर प्रतिपादन शुल्क अधिरोपित करती है, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (11) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित करेगी और उक्त सारणी के स्तंभ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रति मापन इकाई में व्यक्त है।

सारणी

क्र.सं.	सं.	माल का विवरण	विशिष्टता	उदगम देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	प्रति मापन इकाई	करेगी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812 या 3815	रबर रसायन पीएक्स-13	एन (1,3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल)-एन फिनाइल-पी-फिनाइलिनडाइएमिन या 6सी, या पिलफलैक्स 13, सिरै-टॉक्स 4020, एटीऑक्सिडेंट्स 4020, कुम्होनेक्स 13, बल्के-गॉक्स 4020	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	सिनार्जक कं. शेनडोंग	सिनार्जक कं. शेनडोंग	42.70	प्रति किलो ग्राम	रुपये
2	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812 या 3815	रबर रसायन पीएक्स-13	एन (1,3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल)-एन फिनाइल पी-फिनाइलिनडाइएमिन या 6सी, या पिलफलैक्स 13, सिरै-टॉक्स 4020, एटीऑक्सिडेंट्स 4020, कुम्होनेक्स 13, बल्के-गॉक्स 4020	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	उपयुक्तों के सिवाय अन्य कोई	उपयुक्तों के सिवाय अन्य कोई	60.59	प्रति किलो ग्राम	रुपये
3	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812 या 3815	रबर रसायन पीएक्स-13	एन (1,3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल)-एन फिनाइल-पी-फिनाइलिनडाइएमिन या 6सी, या पिलफलैक्स 13, सिरै-टॉक्स 4020, एटीऑक्सिडेंट्स 4020, कुम्होनेक्स 13, बल्के-गॉक्स 4020	कोरिया आर०पी० के सिवाय अन्य कोई	चीन जनवादी गणराज्य	उपयुक्तों के सिवाय अन्य कोई	उपयुक्तों के सिवाय अन्य कोई	60.59	प्रति किलो ग्राम	रुपये

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		रबर रसायन	2 मर्कटो बेजोथइएजॉल, या एक्सेलेरेटर एम, एक्सेलेरेटर एमबीटी	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोरिया आरपी	कुम्हो पैदोकेमिकल क. लि.	कुम्हो पैदोकेमिकल क. लि.	10.35	प्रति किलो ग्राम	रुपये
		रबर रसायन	2 मर्कटो बेजोथइएजॉल, या एक्सेलेरेटर एम, एक्सेलेरेटर एमबीटी	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोरिया आरपी	उपयुक्त के सिवाय अन्य कोई	उपयुक्त के सिवाय अन्य कोई	11.31	प्रति किलो ग्राम	रुपये
		रबर रसायन	2 मर्कटो बेजोथइएजॉल, या एक्सेलेरेटर एम, एक्सेलेरेटर एमबीटी	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	शैनडोंग शीकिंग कौमिकल लि.	शैनडोंग शीकिंग कौमिकल लि.	24.96	प्रति किलो ग्राम	रुपये
		रबर रसायन	2 मर्कटो बेजोथइएजॉल, या एक्सेलेरेटर एम, एक्सेलेरेटर एमबीटी	चीन जनवादी गणराज्य	कोरिया जनवादी गणराज्य	उपयुक्त के सिवाय अन्य कोई	उपयुक्त के सिवाय अन्य कोई	26.06	प्रति किलो ग्राम	रुपये
		रबर रसायन	2 मर्कटो बेजोथइएजॉल, या एक्सेलेरेटर एम, एक्सेलेरेटर एमबीटी	चीन जनवादी गणराज्य	कोरिया जनवादी गणराज्य	उपयुक्त के सिवाय अन्य कोई	उपयुक्त के सिवाय अन्य कोई	26.06	प्रति किलो ग्राम	रुपये
		रबर रसायन टीडीक्यू	पोलिमेराइज 2,2,4-ट्राइग्लाइल 1,2-अडिग्लाइल या टीडीक्यू या एंटीऑक्साइड आरडी	चीन जनवादी गणराज्य	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोरिया जनवादी गणराज्य	18.22	प्रति किलो ग्राम	रुपये

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2942, 3811, 3812 या 3815									
11	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812 या 3815	स्वर रसायन टीडीक्यू	पॉलिमेराइज 2.2.4 ट्राइमिथाइल-1.2 डाइहाइड्रोक्विनोलीन या टीडीक्यू या एंटीऑक्सिडेंट आरडी	कोई	वीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	18.22	प्रति किलो ग्राम	रुपये
12	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812 या 3815	स्वर रसायन टीएमटी	टेट्रा मिथाइलथियुरम डिसफ्लुड या एक्सलेरेटर टीएमटीडी, थिउरम सी	वीन जनवादी गणराज्य	वीन जनवादी गणराज्य	शैनडॉंग शैंक्सिन कैमिकल कं. लि.	शैनडॉंग शैंक्सिन कैमिकल कं. लि.	24.13	प्रति किलो ग्राम	रुपये
13	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812 या 3815	स्वर रसायन टीएमटी	टेट्रा मिथाइलथियुरम डिसफ्लुड या एक्सलेरेटर टीएमटीडी, थिउरम सी	वीन जनवादी गणराज्य	कोई	उपयुक्त के शिवाय अन्य कोई	उपयुक्त के शिवाय अन्य कोई	28.86	प्रति किलो ग्राम	रुपये
14	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812 या 3815	स्वर रसायन टीएमटी	टेट्रा मिथाइलथियुरम डिसफ्लुड या एक्सलेरेटर टीएमटीडी, थिउरम सी	कोई	वीन जनवादी गणराज्य	उपयुक्त के शिवाय अन्य कोई	उपयुक्त के शिवाय अन्य कोई	28.86	प्रति किलो ग्राम	रुपये
15	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812 या 3815	स्वर रसायन सीबीएस	एन-साइक्लोहेक्साइल 2- बेंजथिओल सल्फेनामाइड, या एक्सलेरेटर सीजेड, एक्सलेरेटर एचबीएस, सीबीएस	वीन जनवादी गणराज्य	वीन जनवादी गणराज्य	शैनडॉंग शैंक्सिन कैमिकल कं. लि.	शैनडॉंग शैंक्सिन कैमिकल कं. लि.	36.21	प्रति किलो ग्राम	रुपये
16	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812 या 3815	स्वर रसायन सीबीएस	एन-साइक्लोहेक्साइल 2- बेंजथिओल सल्फेनामाइड, या एक्सलेरेटर सीजेड, एक्सलेरेटर एचबीएस, सीबीएस	वीन जनवादी गणराज्य	कोई	उपयुक्त के शिवाय अन्य कोई	उपयुक्त के शिवाय अन्य कोई	40.10	प्रति किलो ग्राम	रुपये
17	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935	स्वर रसायन सीबीएस	एन-साइक्लोहेक्साइल 2- बेंजथिओल सल्फेनामाइड, या एक्सलेरेटर सीजेड, एक्सलेरेटर एचबीएस, सीबीएस	कोई	वीन जनवादी गणराज्य	उपयुक्त के शिवाय अन्य कोई	उपयुक्त के शिवाय अन्य कोई	40.10	प्रति किलो ग्राम	रुपये

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2942, 3811, 3812 या 3815									
18*	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812 या 3815	रबर रसायन पीवीआई	एन- (साइक्लोहेक्स साइलथिओ) थेलामाईड, या एंटी स्कॉच एजेंट सीटीपी, पीवीआई	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	शैनडॉंग शैक्सिन कैमिकल कं. लि.	13.05	प्रति किलो ग्राम	रुपये
19	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812 या 3815	रबर रसायन पीवीआई	एन- (साइक्लोहेक्स साइलथिओ) थेलामाईड, या एंटी स्कॉच एजेंट सीटीपी, पीवीआई	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	शैनडॉंग यांग्गु हुतु कैमिकल कं. लि.	शैनडॉंग यांग्गु हुतु कैमिकल कं. लि.	20.91	प्रति किलो ग्राम	रुपये
20	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812 या 3815	रबर रसायन पीवीआई	एन- (साइक्लोहेक्स साइलथिओ) थेलामाईड, या एंटी स्कॉच एजेंट सीटीपी, पीवीआई	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	उपयुक्त के शिवाय अन्य कोई	उपयुक्त के शिवाय अन्य कोई	27.91	प्रति किलो ग्राम	रुपये
21	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812 या 3815	रबर रसायन पीवीआई	एन- (साइक्लोहेक्स साइलथिओ) थेलामाईड, या एंटी स्कॉच एजेंट सीटीपी, पीवीआई	कोई	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	27.91	प्रति किलो ग्राम	रुपये

2. इस अधिसूचना के अधीन अधिलेखित अनंतिम प्रतिपादन शुल्क 5 मई, 2008 से, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी होगा और भारतीय करेंसी में संदेय होगा।

स्पटीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए प्रतिपादन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू "विनिमय दर" वह दर होगी जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 44 के अधीन संस्थितों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है और विनिमय दर के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन प्रवेशपत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/166/2007-टीआरयू]

उन्मेष वाघ, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2008

No. 133/2008-Customs

G.S.R. 853(E).—Whereas in the matter of imports of certain rubber chemicals, namely, MBT (having chemical description 2-Mercapto Benzothiazole), CBS (having chemical description N-Cyclohexyl-2-Benzothiazole Sulphenamide), TDQ (having chemical description Polymerized 2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydroquinoline), PVI [having chemical description N-(Cyclohexylthio) Phthalimide], TMT (having chemical description as Tetramethylthiuram Disulfide) and PX-13 (6PPD) [having chemical description N-(1,3-dimethyl butyl)-N Phenyl P-1] (hereinafter referred to as the subject goods), falling under Chapter 29 or 38 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in or exported from the People's Republic of China and Korea RP (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority in its preliminary findings *vide* notification No.14/5/2007-DGAD dated the 28th February, 2008 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 28th February, 2008, had come to the conclusion that

- (a) the subject goods had been exported to India from the subject countries below its normal value;
- (b) the domestic industry had suffered material injury; and
- (c) the injury had been caused by the dumped imports from subject countries;

and had recommended imposition of provisional anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from, the subject countries;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed provisional anti-dumping duty on the subject goods *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 61/2008-Customs, dated 5th May, 2008, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 337(E), dated the 5th May, 2008;

And whereas, the designated authority in its final findings *vide* notification No. 14/5/2007-DGAD dated the 1st October, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 1st October, 2008, had come to the conclusion that-

(b) imports originating in the subject country are taking place at dumped prices and the same had caused material injury to the domestic industry;

(c) subject goods exported from the subject countries were at prices below their normal values, non-injurious price of the domestic industry and the net sales realization of the subject goods of the applicants, and had caused injury to the domestic industry;

(d) decline in market share of domestic industry as a consequence of increase in market share of subject imports from the subject country prevented the domestic industry from increasing their sales commensurate to growth in demand;

(e) significant price-undercutting and substantial increase in the volume of dumped imports adversely affected the performance of the domestic industry in terms of profits, cash flow, and return on investment; and

(f) significant increase in volume of dumped imports from the subject country (both in absolute terms and in relation to the share in demand) had resulted in significant decline in market share of the domestic industry;

and had recommended the imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in or exported from the subject country;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes on the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under heading of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), the specification of which is specified in column (4) of the said Table, originating in the country specified in the corresponding entry in column (5), and exported from the country specified in the corresponding entry in column (6) and produced by the producer specified in the corresponding entry in column (7) and exported by the exporter specified in the corresponding entry in column (8), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount indicated in the corresponding entry in column (9), in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (11) of the said Table.

TABLE

S. No	Heading	Description	Specification	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Duty amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	(8)	(9)	(10)	(11)
1	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812, or 3815	Rubber Chemical PX-13	N-(1,3-dimethyl butyl)-N' Phenyl-p-phenylenediamine or 6C, or Piflex 13, Sirantox 4020, antioxidant 4020, kumhonax 13, vulcanox 4020	People's Republic of China	People's Republic of China	Sinorgchem Co. Shandong	Sinorgchem Co. Shandong	42.70	Per kilogram	Rupees
2	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812, or 3815	Rubber Chemical PX-13	N-(1,3-dimethyl butyl)-N' Phenyl-p-phenylenediamine or 6C, or Piflex 13, Sirantox 4020, antioxidant 4020, kumhonax 13, vulcanox 4020	People's Republic of China	Any	Any other than above	Any other than above	60.59	Per kilogram	Rupees
3	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812, or 3815	Rubber Chemical PX-13	N-(1,3-dimethyl butyl)-N' Phenyl-p-phenylenediamine or 6C, or Piflex 13, Sirantox 4020, antioxidant 4020, kumhonax 13, vulcanox 4020	Any other than Korea RP	People's Republic of China	Any other than above	Any other than above	60.59	Per kilogram	Rupees
4	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812, or 3815	Rubber Chemical PX-13	N-(1,3-dimethyl butyl)-N' Phenyl-p-phenylenediamine or 6C, or Piflex 13, Sirantox 4020, antioxidant 4020, kumhonax 13, vulcanox 4020	Korea RP	Korea RP	Kumho Petrochemicals Co Ltd	Kumho Petrochemicals Co Ltd	10.35	Per kilogram	Rupees

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812, or 3815	Rubber Chemical PX-13	vulcanox 4020 N-(1,3-dimethyl butyl)-N' Phenyl-p- phenylenediamine or 6C, or Pilflex 13, Sirantox 4020, antioxidant 4020, kumhonax 13, vulcanox 4020	Korea RP	Any	Any other than above	Any other than above	11.31	Per kilogram	Rupees
6	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812, or 3815	Rubber Chemical PX-13	N-(1,3-dimethyl butyl)-N' Phenyl-p- phenylenediamine or 6C, or Pilflex 13, Sirantox 4020, antioxidant 4020, kumhonax 13, vulcanox 4020	Any other than People's Republic of China	Korea RP	Any other than above	Any other than above	11.31	Per kilogram	Rupees
7	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812, or 3815	Rubber Chemical MBT	2-Mercapto Benzothiazole, or Accelerator M, Accelerator MBT	People's Republic of China	People's Republic of China	Shandong Shanxian Chemical Co. Ltd.	Shandong Shanxian Chemical Co. Ltd.	24.96	Per kilogram	Rupees
8	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812, or 3815	Rubber Chemical MBT	2-Mercapto Benzothiazole, or Accelerator M, Accelerator MBT	People's Republic of China	Any	Any other than above	Any other than above	26.06	Per kilogram	Rupees
9	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812, or 3815	Rubber Chemical MBT	2-Mercapto Benzothiazole, or Accelerator M, Accelerator MBT	Any	People's Republic of China	Any other than above	Any other than above	26.06	Per kilogram	Rupees

4864 GI/08-2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	3812, or 3815									
10	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812, or 3815	Rubber Chemical TDQ	Polymerised 2,2,4- Trimethyl-1,2- dihydroquinoline, or TDQ or Antioxidant RD	People's Republic of China	Any	Any	Any	18.22	Per kilogram	Rupees
11	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812, or 3815	Rubber Chemical TDQ	Polymerised 2,2,4- Trimethyl-1,2- dihydroquinoline, or TDQ or Antioxidant RD	Any	People's Republic of China	Any	Any	18.22	Per kilogram	Rupees
12	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812, or 3815	Rubber Chemical TMT	Tetramethylthiuram Disulfide, or Accelerator TMTD, Thiuram C	People's Republic of China	People's Republic of China	Shandong Shanxian Chemical Co. Ltd.	Shandong Shanxian Chemical Co. Ltd.	24.13	Per kilogram	Rupees
13	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812, or 3815	Rubber Chemical TMT	Tetramethylthiuram Disulfide, or Accelerator TMTD, Thiuram C	People's Republic of China	Any	Any other than above	Any other than above	28.86	Per kilogram	Rupees

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
14	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812, or 3815	Rubber Chemical TMT	Tetramethylthiuram Disulfide, or Accelerator TMTD, Thiuram C	Any	People's Republic of China	Any other than above	Any other than above	28.86	Per kilogram	Rupees
15	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812, or 3815	Rubber Chemical CBS	N-cyclohexyl-2- benzothiazole sulphenamide, or Accelerator CZ, Accelerator HBS, CBS	People's Republic of China	People's Republic of China	Shandong Shanxian Chemical Co. Ltd.	Shandong Shanxian Chemical Co. Ltd.	36.21	Per kilogram	Rupees
16	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812, or 3815	Rubber Chemical CBS	N-cyclohexyl-2- benzothiazole sulphenamide, or Accelerator CZ, Accelerator HBS, CBS	People's Republic of China	Any	Any other than above	Any other than above	40.10	Per kilogram	Rupees
17	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812, or 3815	Rubber Chemical CBS	N-cyclohexyl-2- benzothiazole sulphenamide, or Accelerator CZ, Accelerator HBS, CBS	Any	People's Republic of China	Any other than above	Any other than above	40.10	Per kilogram	Rupees
18	2902, 2907,	Rubber	N-(Cyclohexylthio)	People's	People's	Any	Shandong	13.05	Per kilogram	Rupees

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812, or 3815	Chemical PVI	phthalimide, or Anti Scorch Agent CTP, PVI	Republic of China	Republic of China		Shanxian Chemical Co. Ltd.			
19	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812, or 3815	Rubber Chemical PVI	N-(Cyclohexylthio) phthalimide, or Anti Scorch Agent CTP, PVI	People's Republic of China	People's Republic of China	Shandong Yanggu Huatai Chemical Co. Ltd.	Shandong Yanggu Huatai Chemical Co. Ltd.	20.91	Per kilogram	Rupees
20	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812, or 381	Rubber Chemical PVI	N-(Cyclohexylthio) phthalimide, or Anti Scorch Agent CTP, PVI	People's Republic of China	Any	Any other than above	Any other than above	27.91	Per kilogram	Rupees
21	2902, 2907, 2909, 2917, 2921, 2925, 2930, 2933, 2934, 2935, 2942, 3811, 3812, or 3815	Rubber Chemical PVI	N-(Cyclohexylthio) phthalimide, or Anti Scorch Agent CTP, PVI	Any	People's Republic of China	Any	Any	27.91	Per kilogram	Rupees

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied with effect from the date of imposition of the provisional anti-dumping duty, that is, the 5th May, 2008, and shall be payable in Indian currency.

Explanation. - For the purposes of this notification "rate of exchange" applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F.No.354/166/2007-TRU]

UNMESH WAGH, Under Secy.